

## अध्याय 10

### जोया का संसार

दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए-

अवाक्-आश्चर्य से चुपचाप। न्योता- निमंत्रण । सुंदरतम- सबसे सुंदर। निर्दयता-दया की भावना न होना। आकृति - आकार। अविस्मरणीय -जिसको कभी भूला ना जा सके। उत्सुकतावश -जानने की तीव्र इच्छा। सिलसिला -लगातार।

सही उत्तर पर सही का निशान लगाओ-

1. जैक और सोहनी की यह कौन सी यात्रा थी ?  
क.पहली [√] ख.दूसरी ग. तीसरी
- 2.ऑक्टोपस के कितने हाथ होते हैं?  
क. चार ख. आठ [√] ग.दस
3. पानी में सांस लेने के लिए जलपरी ने दोनों के मुँह पर क्या लगा दिया?  
क. टोपी ख. चश्मा ग.मास्क [√]
- 4.जलपरी ने जैक और सोहनी को ऊपर जाने के लिए क्या दिया?  
क. हीरा ख.मोती [√] ग.सोना
- 5.जलपरी का पूरा नाम क्या था ?  
क.जोया जलपरी [√] ख.हीरामणि ग.राजमणि

रिक्त स्थानों की पूर्ती करें -

- 1.आज कितना अच्छा मौसम है जैक ने सोहनी से कहा।
- 2.अचानक सोहनी को एक आकृति दिखाई दी।
- 3.बातों ही बातों में जोया ने दोनों को समुद्री दुनिया यात्रा का न्योता भी दे दिया।
4. कितना सुंदर सजा हुआ महल है और बहुत सारी जलपरियाँ भी ।

5. मैंने किताब में पढ़ा था कि समुद्र में अलग ही संसार बसता है।

### सही तथा गलत का निशान लगाओ

1. जैक की यह दूसरी समुद्री यात्रा थी । [X]
2. दोनों पहले भी जलपरी देख चुके थे । [X]
3. जलपरी उनको आसमान में ले गई। [X]
4. वे जलपरी के साथ घूमने निकले। [√]
5. दोनों ने समुद्र में एक ऊंट देखा । [X]
6. दोनों उड़कर का जहाज तक पहुँचे । [X]
7. लोग सस्ते दामों पर माँस बेचने के लिए नीली व्हेल का शिकार करते हैं । [√]
8. दोनों ने तय किया कि वे जलपरी के बारे में किसी को नहीं बताएंगे [√]
9. पानी में सांस लेने के लिए उनके मुँह पर मास्क था [√]
10. जलपरी ने अपने परिवार से सोहनी और जैक को मिलाया । [√]

### प्रश्नों के उत्तर लिखो-

1. जहाज के डैक पर खड़े दोनों भाई बहन क्या कर रहे थे ?  
उत्तर- जहाज के डैक पर खड़े दोनों भाई बहन अपनी छुट्टी का पूरा आनंद ले रहे थे ।

2. जैक और सोहनी ने पहली समुद्री जहाज की यात्रा में क्या-क्या देखा?

उत्तर- जैक और सोहनी ने पहली समुद्री जहाज की यात्रा में बहुत सारे कमरे और हॉल, जहाज के डैक पर स्विमिंग पूल, खेल का कमरा, जिसमें तरह-तरह के खिलौने झूले पुस्तकालय अलग-अलग चीजों की दुकानें देखा ।

3. जैक और सोहनी क्यों एक दूसरे को आवाक् से देख रहे थे?  
उत्तर- जैक और सोहनी ने पूछ वाली मानव आकृति के मछली ( जलपरी) को देख एक दूसरे को आवाक् से देख रहे थे।

4. जलपरी का क्या नाम है?

उत्तर- जलपरी का नाम 'जोया जलपरी' है।

5. जलपरी ने बातों ही बातों में किस बात का न्योता दे दिया?

उत्तर-जलपरी ने बातों ही बातों में समुद्री दुनिया की यात्रा का न्योता दे दिया।

6. जैक और सोनी ने समुद्र की सैर में क्या-क्या देखा?

उत्तर-दोनों ने समुद्र की सैर में समुद्री घोड़ा, ऑक्टोपस, शार्क, व्हेल, कछुए, समुद्री घास रंग बिरंगी मछलियां अलग-अलग की अलग-अलग तरह के प्राणी देखा।

7. नीली व्हेल उदास क्यों थी ?

उत्तर- मनुष्य नीली व्हेल का बड़ी निर्दयता से शिकार करते और इनके मांस को बेचते हैं, इसलिए नीली व्हेल उदास थी ।

8. जलपरी ने दोनों को ऊपर जाने के लिए क्या दिया?

उत्तर -जलपरी ने दोनों को ऊपर जाने के लिए एक मोती दिया।

**दिए गए वाक्यों में उचित व विराम चिन्ह का प्रयोग करो :-**

क. आज कितना अच्छा मौसम है ! जैक ने सोहनी से कहा ।

ख. समुद्री घोड़ा? पानी में दौड़ता कैसे होगा? जैक ने आश्चर्य से पूछा।

ग. दीदी देखो, नीली व्हेल! लेकिन इतनी वह इतनी उदास क्यों है ?

घ. क्या आप सचमुच की जलपरी हो? के बीच में ही जैक ने भी उत्सुकता से पूछा ।

ड. दोनों ने कुछ समय तक समुद्र की सैर की।